



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 1981/फाल्गुन 12, 1902

No. 50]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 1981/PHALGUNA 12, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 19-ईटीसी (पी एन)/81

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1981

विषय:—1980-81 के दौरान प्याज की निर्यात नीति—तत्सम्बन्धी प्रक्रिया

मिसिल सं० 7(2)81-ई-2. —निर्यात नीति 1980-81 के पृष्ठ 11 के नीति विवरण की श्रम संख्या 16 (1) की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसके अनुसार प्याज का निर्यात भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) के माध्यम से सारणीबद्ध है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि प्याज के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के साथ-साथ उसके निर्यात का पंजीकरण करने और अनुश्रवण करने का काम अधिकरण नेफेड ही करेगा। प्याज के निर्यात के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:—

(क) 31 मार्च, 1981 तक, पहले आए सो पहले पाए के आधार पर सीमित उच्चतम सीमा के भीतर उन निर्यातकों को प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने नेफेड द्वारा निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य की दर पर निर्यात करने के लिए आर्डर बुक किए हैं और अपनी संविदाएं नेफेड के पास पंजीकृत करवा ली हैं।

(ख) नेफेड के पास पंजीकरण करवाने की तिथि से 14 दिनों की अवधि के भीतर निर्यात संविदा के साथ अपरिवर्तनीय साख

पत्र दिया जाना चाहिए। यदि किसी मामले में निर्धारित अवधि के भीतर नेफेड को बैंड अपरिवर्तनीय साख पत्र नहीं दिया जाता है तो पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

(ग) जब तक उच्चतम सीमा समाप्त नहीं हो जाती नेफेड निर्यात संविदाएं पंजीकृत करता रहेगा।

(घ) नेफेड स्वयं निर्यात भी करता रहेगा।

(ङ) न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए नेफेड मूल्य सलाहकार समिति बनाएगा। समिति के अध्यक्ष प्रबन्धक निवेशक नेफेड होंगे, वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि और व्यापारियों के प्रतिनिधि सबस्य होंगे।

(च) मूल्य सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य को नेफेड तत्काल ही सीमा-शुल्क और निर्यातकों को व्यापार सूचना द्वारा बताएगा।

3. नेफेड द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र और अपरिवर्तनीय साख पत्र के आधार पर सीमा-शुल्क प्राधिकारी निर्यात की अनुमति देंगे बशर्ते कि पोतलवान की तिथि को जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य न्यूनतम निर्यात मूल्य से कम न हो।

4. उपयुक्त प्रक्रिया केवल 31 मार्च, 1981 तक लागू होगी

श्रीमती उषा बोहरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

Export Trade Control

PUBLIC NOTICE No. 19-ETC(PN)/81

New Delhi, the 3rd March, 1981

Subject :—Export Policy of Onions during 1980-81—
Procedure regarding.

File No. 7(2)/81-E. II.—Attention is invited to S. No. 16(i) at Page 11 of Policy Statement of Export Policy for 1980-81, according to which export of Onions is canalised through the National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED).

2. On a review of the situation, it has been decided that NAFED shall be the agency for registering and monitoring the exports of Onions as well as for fixation of minimum export price. The following procedure shall be adopted for export of Onions :—

- (a) Export of Onions will be allowed upto 31st March, 1981, on first-come, first-served basis within a limited ceiling through exporters who have booked orders for export at rates not lower than the minimum export price fixed by NAFED and who have registered their contracts with NAFED.

- (b) The export contracts should be supported by irrevocable Letters of Credit within a period of 14 days from the date of registration of contracts with NAFED. In case a valid irrevocable Letter of Credit is not submitted to the NAFED within the specified period, the registration will be cancelled.
- (c) NAFED will continue to register export contracts till the ceiling is reached.
- (d) NAFED may also continue to undertake exports itself.
- (e) A price Advisory Committee will be set up by NAFED to determine the MEP. The Chairman of the Committee will be the Managing Director, NAFED with a representative of the Ministry of Commerce and representatives from trade as members.
- (f) MEP fixed by the Price Advisory Committee will be intimated by NAFED immediately to Customs and to exporters by Trade Notice.

3. On the basis of the registration certificate issued by NAFED and the Letters of Credit, the Customs will allow exports provided the f.o.b. value is not less than on the date of the shipment.

4. The above procedure shall be in force only upto 31st March, 1981.

MRS. USHA VOHRA, Jt. Secy.